



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2011/आश्विन 4, 1933

No. 538]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2011/ASVINA 4, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन-स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 721(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 और 2 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को दिनांक 31-3-2012 तक अथवा गुप्त मत चुनाव किए जाने/उसके परिणाम घोषित होने तक, जो भी पहले हो, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और उन्हें उसी बोर्ड में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | श्री दिनेश काशीनाथ पाटिल, जेएनपीटी कामगार एकता संगठन के अध्यक्ष   | पत्तन में नियोजित श्रमिकों के प्रतिनिधि। |
| 2. | श्री भूषण एन. पाटिल, न्हावा शेवा बंदर कामगार संगठन (ए) के महासचिव | पत्तन में नियोजित श्रमिकों के प्रतिनिधि। |

[फा. सं. पी टी-18011/2/2011-पी टी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2011

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1 and 2 in the Table below to be trustees on the Board of Jawaharlal Nehru Port Trust up to 31-3-2012 or till the holding/result of Secret Ballot election whichever is earlier and notifies the same :—

TABLE

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Shri Dinesh Kashinath Patil, President of JNPT Kamgar Ekta Sanghatana                 | Representing Labour Employed in the port. |
| 2. | Shri Bhushan N. Patil, General Secretary of Nhava Sheva Bandar Kamgar Sanghatana (A). | Representing Labour Employed in the port. |

[F. No. PT-18011/2/2011-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.